



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 966]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/फाल्गुन 18, 1939

No. 966]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

का.आ. 1084(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1194(अ), तारीख 22 मार्च, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड(ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 0.000 कि.मी. से 20.650 कि.मी. (विजयवाडा-मछलीपट्टनम सेक्सन) तक के भू-खण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 15 मई, 2016 को “दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया” और “साक्षी (तेलुगु)” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा(2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 0.000 कि.मी. से 20.650 कि.मी. तक (विजयवाडा-मच्छलीपट्टनम सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक/मण्डल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृष्णा	पेनामालूरु	गोसाला	97/1B	निजी	शुष्क	3865	सूर्यदेवरा अजय नागेन्द्र बाबू
कुल							3865	

[फा.सं.भाराराप्रा/बीओटी-1/11012/72-एलए/2015/भाग]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2018

S.O. 1084(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O.1194(E)**, dated **22nd March, 2016** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 9 on the stretch of land from Km.0.000 to Km.20.650 (Vijayawada – Machilipatnam Section) in the District of Krishna in the State of Andhra Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sakshi” and “The Times of India” both dated 15.05.2016, under sub-section (3) of section 3A of the said Act

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km.0.000 to Km.20.650 (Vijayawada-Machilipatnam Section) of National Highway No. 9 in the State of Andhra Pradesh.

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk/ Mandal	Name of the Village	Survey Number	Type of land	Nature of Land	Area (in Sq. mtrs.)	Name of the land owner/ Interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Krishna	Penamaluru	Gosala	97/1B	Private	Dry	3865	Suryadevara Ajay Nagendra Babu
Total							3865	

[F. No. NHAI/BOT-I/11012/72-LA/2015/Part]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.